



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 639) पटना, बुधवार, 23 दिसम्बर 2009

मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) का कार्यालय यॉत्रिक उपभाग

पथ निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

15 दिसम्बर 2009

सं0 यॉ.प्र.-17/अनुकम्पा-25/08-43—जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति पटना के पत्रांक 1914, दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रिता देवी, पत्नी स्व. शिव कुमार, ग्राम+पो.-कुढनी, थाना-कुढनी, जिला-मुजफ्फरपुर को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्र सं. 3/एम./03/2001 का.-3385, दिनांक 20 जून 2001 में वर्णित निदेशानुसार अनुकम्पा के आधार पर अनुसेविका के रिक्त पद पर वेतनमान रु0 2550-55-2660-60-3200 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत आदेश भत्ते के साथ पदभार ग्रहण की तिथि से औपबधिक रूप से नियुक्त कर यॉत्रिक प्रमण्डल, प.नि.वि. मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया जाता है।

2. इन्हें योगदान हेतु यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
3. योगदान करने के समय इन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सका पदाधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण के उत्तरदायित्व के अवहेलना करने पर परिलब्धियों का आधार अंश परिवार के आश्रित के आश्रित को देय होगा, अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सेवा समाप्त की जा सकती है।

5. इनके शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इनकी सेवा कारण पृच्छा प्राप्त कर समाप्त की जा सकती है।

6. श्रीमती रिता देवी के संबंध में दिनांक 01 सितम्बर 2005 से प्रभावी बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी योजना 2005 लागू होगा।

7. विवाह में दहेज नहीं लेने-देने का शपथ देना होगा।

(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता(याँ),
याँत्रिक उपभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 639-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>